



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 फाल्गुन 1933 (श0)
(सं0 पटना 60) पटना, बुधवार, 22 फरवरी 2012

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

कार्यालय आदेश
12 जनवरी 2012

सं० मु०अ०/सि० अनु०-190/11-83—जिला अनुकम्पा समिति, भागलपुर के ज्ञापांक 251(प्र०), दिनांक 17.11.2009 द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुपालन में स्व० सत्यदेव सिंह, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलपुर के आश्रित पुत्र श्री कैलाश कुमार को भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत रिक्त लेखा लिपिक के पद के विरुद्ध निम्नवर्गीय लिपिक तृतीय श्रेणी पद पर वेतनमान रु० 3050-4590 का पुनरीक्षित वेतनमान 5200 + 20200 + ग्रेड पे-1900 रु० में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है। इनका लेखा लिपिक का दावा अनुमान्य नहीं होगा।

1. श्री कैलाश कुमार पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्ति पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन देन नहीं करने संबंधी शपथ-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, न्यायालय में मुकदमा लंबित नहीं रहने के शपथ-पत्र तथा स्व० सत्यदेव सिंह के आश्रित सदस्यों का भरण पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ पत्र आदि मूल कागजात उप-निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच उप निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच उप-निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलपुर स्वयं करेंगे तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

2. श्री कैलाश कुमार पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नये नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-मुख्य शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, विवाह में तिलक, दहेज का लेन देन नहीं करने संबंधी शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, न्यायालय में मुकदमा लंबित नहीं रहने के शपथ पत्र तथा स्व० सत्यदेव सिंह के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ पत्र आदि मूल कागजात उप-निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच उप निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलपुर स्वयं करेंगे तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.1991 की कंडिका 1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत की गयी थी, का सत्यापन उप-निदेशक भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलपुर द्वारा करा लिया जायेगा।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05.10.1991 की कंडिका- 7 के अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी, तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा एक कारण पृच्छा प्राप्त कर इसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी इस संबंध में श्री कैलाश कुमार को योगदान करने के समय वर्णित अनुदेश के अनुस्व एक घोषणा-पत्र भी उप-निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे उक्त पदाधिकारी श्री कैलाश कुमार की सेवापुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

5. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्त होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होगी तो किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31.08.2005 एवं संकल्प संख्या 2469, दिनांक 16.11.2005 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंशदायी पेंशन योजना, 2005 के प्रावधान लागू होंगे।

7. दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्त की जा रहे व्यक्ति को उप-निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, भागलपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

9. योगदान करने हेतु श्री कैलाश कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
मुख्य अभियन्ता,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 60-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>